



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 वैशाख 1944 (श0)

(सं0 पटना 251) पटना, सोमवार, 2 मई 2022

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

29 अप्रैल 2022

सं० 08/नियम संशोधन (दाखिल-खारिज)-07-10/2021-466(8)/रा०—विभागीय अधिसूचना सं०-375(8)/रा० दिनांक-24.03.2022 द्वारा बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 23, 2011) की धारा-2 की उप धारा-(6) में निहित प्रावधान के अधीन राजस्व अधिकारी (Revenue Officer) को अंचल स्तर पर प्राप्त भूमि दाखिल-खारिज याचिकाओं के निष्पादन हेतु, सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित मामलों में अगले आदेश तक अंचल अधिकारी की शक्ति प्रदत्त की गई है।

2. उक्त अधिसूचना को सम्यक् रूप से लागू करने के लिए निम्नांकित निर्णय संसूचित किये जाते हैं:-

- (i) दाखिल-खारिज हेतु सभी आवेदन/याचिकाएँ पूर्व की तरह संबंधित अंचल अधिकारी के समक्ष दायर किये जायेंगे।
- (ii) अंचल अधिकारी द्वारा संबंधित राजस्व कर्मचारी को प्रपत्र-XIII में जाँच हेतु आवेदन/याचिका अग्रसारित किया जायेगा।
- (iii) राजस्व कर्मचारी प्रपत्र-XIII में मंतव्य सहित जाँच प्रतिवेदन अंकित कर वाद राजस्व अधिकारी को निर्णयार्थ अग्रसारित करेंगे।
- (iv) राजस्व अधिकारी, राजस्व कर्मचारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर अपना मंतव्य अंकित करते हुए वाद को अंचल अधिकारी को निर्णयार्थ अग्रसारित करेंगे।
- (v) विषम संख्या (Odd Number) वाले हल्का के लिए भूमि दाखिल-खारिज हेतु सक्षम प्राधिकार अंचल अधिकारी होंगे तथा इन हल्का का आम सूचना/खास सूचना/सुनवाई/दाखिल-खारिज आदेश/शुद्धि-पत्र, इत्यादि सभी अनुषंगी कार्यवाई अंचल अधिकारी के स्तर से किया जायेगा।
- (vi) सम संख्या (Even Number) वाले हल्का के लिए भूमि दाखिल-खारिज हेतु सक्षम प्राधिकार राजस्व अधिकारी होंगे तथा इन हल्का का आम सूचना/खास सूचना/सुनवाई/दाखिल-खारिज आदेश/शुद्धि-पत्र, इत्यादि सभी अनुषंगी कार्यवाई राजस्व अधिकारी के स्तर से किया जायेगा।

3. भूमि दाखिल-खारिज की उक्त शक्ति वैसे राजस्व अधिकारियों को प्रदत्त होगी, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उक्त अंचलों में अधिसूचित कर पदस्थापित किये गये हैं **तथा उन्होंने वहाँ व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है।**

4. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

5. तथापि, वर्तमान में ऑनलाइन भूमि दाखिल-खारिज अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी द्वारा किये जाने का सॉफ्टवेयर निर्माणाधीन है। सॉफ्टवेयर का निर्माण तथा इसके कार्यशील (Functional) हो जाने के उपरान्त इस अधिसूचना के आधार पर अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी के द्वारा भूमि दाखिल-खारिज याचिकाओं के निष्पादन की कार्यवाही की जाएगी। लेकिन जबतक सॉफ्टवेयर कार्यशील नहीं हो जाता है, तबतक वर्तमान व्यवस्था के तहत ही सभी भूमि दाखिल-खारिज याचिकाओं का निष्पादन संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सॉफ्टवेयर कार्यशील हो जाने के उपरान्त एतद् संबंधी सूचना अग्रेतर कार्यवाही हेतु यथाशीघ्र संसूचित की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

सुशील कुमार,

निदेशक, भू-अर्जन-सह-अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 251-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>